

हरियाणा Plywood Conclave, यमुना नगर

16 मई 2022

सत्र 1: उद्घाटन सत्र

1. सुप्रभात।

- a. माननीय Minister of Forests, Education, Tourism, Parliamentary Affairs, Art & Cultural Affairs and Hospitality Department, हरियाणा, श्री कंवर पाल जी,
 - b. Director General and Secretary, Foreign Cooperation Department अनंत प्रकाश पाण्डेय जी,
 - c. Advisor, Foreign Cooperation Department, पवन चौधरी जी,
 - d. गणमान्य वक्ता,
 - e. भारत सरकार और हरियाणा सरकार के गणमान्य व्यक्ति, प्लाइवुड सेक्टर के सम्मानित अतिथिगण, देवियो एवं सज्जनो।
2. हरियाणा Plywood Conclave में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस विशेष अवसर पर आज हमारे साथ यहां उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका का आभारी हूं।
 3. Export आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे व्यापारियों को अपने सामान के लिए market प्रदान करते हैं। Foreign Policy के मुख्य कार्यों में से एक आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना और सभी व्यापारिक दलों के लाभ के लिए export and import को प्रोत्साहित करना है।
 4. Trade Surplus किसी भी देश में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब अधिक export होते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी देश के factories एवं

industrial facilities से उच्च स्तर का Production हो रहा है, साथ ही इन factories को चलाने के लिए अधिक संख्या में लोगों को ज़रूरत होती है और रोज़गार के नए अवसर पैदा होते हैं।

5. जब कोई कंपनी अच्छी quality के सामानों का export करती है, तो यह देश में पूंजी प्रवाह बढ़ाता है, जो consumer spending को प्रोत्साहित करती है और आर्थिक विकास में योगदान करती है।
6. हरियाणा न केवल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि सामाजिक स्थिरता, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और एक अनुकूल कारोबारी माहौल के लिए जाना जाता है।
7. हमारे माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि सरकारी योजना का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले और सरकार अंत्योदय की अवधारणा पर काम कर रही है।
8. दुनिया तेजी से Globalization के दौर से गुजर रही है और युवाओं के लिए हर दिन नए अवसर सामने आ रहे हैं। बदलते समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने शिक्षा, सामाजिक कल्याण, कौशल विकास, Employment Generation और Trade Promotion के क्षेत्र में कई पहल की हैं।
9. प्राकृतिक संसाधनों की कमी और seaport से राज्य की दूरी के बावजूद exports के क्षेत्र में हरियाणा का प्रदर्शन काबिले तारीफ है। 1967-68 के दौरान INR 4.5 करोड़ के निर्यात से शुरू होकर, 2021-22 के दौरान राज्य का निर्यात INR 1,15,973 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% से अधिक है।
10. दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने Foreign Cooperation विभाग की स्थापना की थी।
11. विभाग का एक कार्य हरियाणा राज्य से Exports को बढ़ावा देना भी है।
12. विभाग हरियाणा से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीति बनाने और क्रियान्वित करने में सक्रिय रूप से शामिल है। प्लाइवुड क्षेत्र में नए और मौजूदा निर्यातकों को सुविधा

प्रदान करने के उद्देश्य से आज हरियाणा-प्लाईवुड कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है।

13. Plywood sector हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह भारत में प्लाईवुड के कुल उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान देता है। यमुनानगर में बढ़ते प्लाईवुड उद्योग के कारण यमुनानगर को “भारत की Plywood Capital” कहा जाता है।

14. मुझे विश्वास है कि यह conclave Plywood Industrialists को अपनी क्षमताओं का और विस्तार करने में मदद करेगा और उन्हें विश्व स्तर पर compete करने में सक्षम बनाएगा।

15. मैं एक बार फिर आज उपस्थित सभी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

16. धन्यवाद!